

## जनपद बाराबंकी

प्रेस नोट सं0-58

दिनांक- 06.07.2021

थाना रामसनेहीघाट पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय एटीएम/डेविड कार्ड से फ्रॉड कर रूपये निकालने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश, 04 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से विभिन्न बैंको के 87 एटीएम/डेविड कार्ड, 01 अदद स्वैप मशीन व घटना में प्रयुक्त आई-20 कार बरामद।

वादी रमाकान्त पुत्र रामनिधि निवासी ग्राम कोटवा सड़क थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी ने थाना रामसनेहीघाट पर सूचना दिया कि दिनांक-02.07.2021 एस.बी.आई. एटीएम कोटवासड़क पर रूपये निकालने गये थे जहां एटीएम केबिन के अन्दर पैसे निकालने की प्रक्रिया में थे कि पीछे से अज्ञात व्यक्ति ने आकर मदद करने के बहाने धोखे से एटीएम कार्ड बदल लिया और थोड़ी देर में 49,000/- रूपये बैंक खाते से निकाल लिए गये । इस सूचना पर थाना रामसनेहीघाट पर मु0अ0सं0 243/21 धारा 420 भादवि पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी श्री यमुना प्रसाद द्वारा घटना का संज्ञान लेकर एटीएम/डेविड कार्ड से फ्रॉड कर रूपये निकालने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री मनोज कुमार पाण्डेय के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी रामसनेहीघाट श्री पंकज सिंह के पर्यवेक्षण में पुलिस टीमों का गठन किया गया। प्रभारी निरीक्षक रामसनेहीघाट के नेतृत्व गठित पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.07.2021 को मुखबिर की सूचना पर एटीएम/डेविड कार्ड से फ्रॉड कर रूपये निकालने वाले 04 शातिर अभियुक्तों 1- साजिद पुत्र खुशीद निवासी बामनी थाना जुरहरा जनपद भरतपुर (राजस्थान), 2- अनीश पुत्र शहाबुद्दीन निवासी धौलागढ़ थाना कैम्प जनपद पलवल (हरियाणा), 3- इरशाद पुत्र कल्लू निवासी घंघोट थाना चांदहट जनपद पलवल (हरियाणा), 4- शाहरूख पुत्र इसराइल निवासी लखनका थाना हथीन जनपद पलवल (हरियाणा) को कोटवा सड़क चौकी थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से विभिन्न बैंको के 87 एटीएम/डेविड कार्ड, 01 अदद स्वैप मशीन व घटना में प्रयुक्त आई-20 कार बरामद किया गया। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त में धारा 419/467/468/471 भादवि की बढ़ोतरी की गयी।

अभियुक्तगणों ने थाना रामसनेहीघाट क्षेत्रान्तर्गत एस.बी.आई. एटीएम कोटवासड़क में एटीएम/डेविड कार्ड बदल कर की गई घटना को स्वीकार करते हुए पूछताछ में बताया कि हम लोगों का एक गिरोह है जिसका सरगना साजिद है । हम लोग हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड व बिहार राज्य में विभिन्न स्थानों पर एटीएम केबिन में घुसकर पहले एटीएम मशीन में लगी बटनों को दबाकर मिस मैच कर देते हैं और जब कोई व्यक्ति रूपये निकालने के लिए आता है तो उसका एटीएम कार्ड काम नहीं करता है उसके बाद हम लोग मदद करने के बहाने पीछे से एटीएम कार्ड का पिन कोड ले लेते हैं और मौका पाकर एटीएम कार्ड को उसी बैंक के एटीएम कार्ड से बदल देते हैं। हम लोगों द्वारा विशेषकर एसबीआई,एचडीएफसी,एक्सिस और पीएनबी के एटीएम मशीनों को चिन्हित करते हैं। बदले गये एटीएम कार्ड को स्वैप मशीन के माध्यम से रूपये अपने बैंक खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं। यह स्वैप मशीन हमारे साथी आजाद पुत्र अलीशेर

निवासी घंघोट थाना चांदहट जनपद पलवल (हरियाणा) की है। ट्रांसफर किये गये रूपयों को आजाद द्वारा विद्वाल किया जाता है और बाद में आपस बंटवारा कर लेते हैं। अभियुक्तगणों द्वारा लगातार कई राज्यों में भोले-भाले व्यक्तियों के साथ इस तरह की घटना कारित की गयी है, जिसका कुछ लोगों द्वारा शिकायत भी दर्ज नहीं करायी गयी।

**अभियुक्तगण द्वारा विभिन्न राज्यों में इस तरह की घटनाएं कारित की गयी है जिसका विवरण निम्नवत् है-**

1- जून 2021 में एसबीआई एटीएम आगरा चौक पलवल में कार्ड बदल कर 1,90,000/-रूपये स्वैप मशीन से ट्रांसफर किया था। इस सम्बन्ध में थाना सिटी कोतवाली पलवल में मु0अ0सं0-371/21 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया है।

2- मार्च 2021 में एचडीएफसी एटीएम हयातपुर, गुरुग्राम हरियाणा में कार्ड बदल कर 38,000/-रूपये स्वैप मशीन से ट्रांसफर किया था। इस सम्बन्ध में थाना करूख नगर में आनलाइन शिकायत पंजीकृत किया गया है।

3- अप्रैल 2021 में एक्सिस बैंक एटीएम महुआ भरतपुर, राजस्थान से कार्ड बदल कर 10,000/-रूपये स्वैप मशीन से ट्रांसफर किया था। इस सम्बन्ध में थाना महुआ जनपद भरतपुर, राजस्थान में मु0अ0सं0-212/21 धारा 420भादवि पंजीकृत किया गया है।

4- जून 2021 में पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से कार्ड बदल कर 16,000/-रूपये स्वैप मशीन से ट्रांसफर किया था। इस सम्बन्ध में थाना नवाबाद जनपद झॉसी में मु0अ0सं0-371/21 धारा 420/406 भादवि पंजीकृत किया गया है।

#### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

- 1- साजिद पुत्र खुर्शीद निवासी बामनी थाना जुरहरा जनपद भरतपुर (राजस्थान) उम्र करीब 28 वर्ष
- 2- अनीश पुत्र शहाबुद्दीन निवासी धौलागढ़ थाना कैम्प जनपद पलवल (हरियाणा) उम्र करीब 28 वर्ष
- 3- इरशाद पुत्र कल्लू निवासी घंघोट थाना चांदहट जनपद पलवल (हरियाणा) उम्र करीब 20 वर्ष
- 4- शाहरूख पुत्र इसराइल निवासी लखनका थाना हथीन जनपद पलवल (हरियाणा) उम्र करीब 19 वर्ष

#### **बरामदगी का विवरण -**

- 1- विभिन्न बैंको के 87 एटीएम/डेविड कार्ड,
- 2- 01 अदद स्वैप मशीन
- 3- घटना में प्रयुक्त आई-20 कार नम्बर-HR 51 SA 1720 (वास्तविक नम्बर- HR 51 CA 1702)

#### **आपराधिक इतिहास-**

- 1- साजिद पुत्र खुर्शीद निवासी बामनी थाना जुरहरा जनपद भरतपुर (राजस्थान)
  1. मु0अ0सं0 406/15 धारा 380 भादवि थाना डींग जनपद भरतपुर (राजस्थान)
  2. मु0अ0सं0 501/15 धारा 380 भादवि थाना मथुरा गेट जनपद भरतपुर (राजस्थान)

3. मु0अ0सं0 333/15 धारा 379/511भादवि व65 आईटी एक्ट थाना कोतवाली भरतपुर(राजस्थान)
- 2- इरशाद पुत्र कल्लू निवासी घंघोट थाना चांदहट जनपद पलवल (हरियाणा)
1. मु0अ0सं0 214/18 धारा 376 डी भादवि थाना चांदहट जनपद पलवल
2. मु0अ0सं0 753/18 धारा 186/189/307/332/34/353/427/506 भादवि थाना मुसेसर फरीदाबाद
3. मु0अ0सं0 171/18 धारा 380/420 भादवि थाना मुसेसर जनपद फरीदाबाद
4. मु0अ0सं0 228/18 धारा 380/420 भादवि थाना मुसेसर जनपद फरीदाबाद
- 3- अनीश पुत्र शहाबुद्दीन निवासी धौलागढ़ थाना कैम्प जनपद पलवल (हरियाणा)
1. मु0अ0सं0 560/18 धारा 147/148/323/506 भादवि थाना कैम्प जनपद पलवल

**पुलिस टीम-**

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री सच्चिदानन्द राय थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
- 2- व0उ0नि0 श्री राजेश कुमार गुप्ता थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
- 3- उ0नि0 श्री अशोक सिंह थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
- 4- का0मो0 कलीम, का0 सचिन कुमार थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
- 5- का0 सुजीत कुमार, का0 मनोज कुमार थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी
- 6- का0 देवराज , का0 यशवन्त यादव, का0पवन चौधरी थाना रामसनेहीघाट जनपद बाराबंकी